



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 3-2018/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, JANUARY 9, 2018 (PAUSA 19, 1939 SAKA)

### हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

### अधिसूचना

दिनांक 09 जनवरी, 2018

**संख्या 06/एसटी-2-** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 54 की उपधारा (3) के परंतुक के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और परिषद् की सिफारिशों पर, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 39/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 (हिन्दी पाठ) में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, तथा प्रथम जुलाई, 2017 से संशोधित की गई समझी जाएंगी, अर्थात्:-

### संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 39/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 (हिन्दी पाठ) में, सारणी में,-

- (i) क्रम संख्या 4 के सामने, खाना (3) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-  
“अन्य वनस्पति टैक्सटाइल फाइबर के व्युत्पन्न फैब्रिक, कागजी सूत”;
- (ii) क्रम संख्या 10 के सामने, खाना (3) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-  
“स्वतः नोदित रेल या ट्राम कोच, वैन और ट्रक, उनसे भिन्न जो शीर्ष 8604 के हैं”; तथा
- (iii) क्रम संख्या 14 के सामने, खाना (3) में, “चल-स्टाक के पुर्जे” शब्दों के स्थान पर, “चल-स्टाक के पुर्जे जैसे कि” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

संजीव कौशल,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
आबकारी तथा कराधान विभाग ।

55902—C.S.—H.G.P., Chd.